



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 478) पटना, बृहस्पतिवार, 16 अप्रील 2015

सं0 बी०सी०डब्लू०सी०-76/2011 श्र0सं0-53

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

4 फरवरी 2015

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 एवं बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 251 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार को परामर्श देने एवं कार्यकलापों के प्रशासन हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन निम्न रूप से किया जाता है :-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. श्रमायुक्त, बिहार                                     | पदेन अध्यक्ष |
| 2. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित एक सदस्य                  | सदस्य        |
| <b>कर्मकारों के प्रतिनिधि</b>                            |              |
| 3. श्री बिन्देश्वरी सिंह,                                | सदस्य        |
| महासचिव, अग्रगामी असंगठित मजदूर यूनियन                   |              |
| 4. श्री अरुण कुमार मेहता,                                | सदस्य        |
| महासचिव, बिहार निर्माण मजदूर यूनियन                      |              |
| 5. श्री खगेश प्रसाद सिंह,                                | सदस्य        |
| भवन निर्माण मजदूर संघ, कटिहार                            |              |
| 6. श्री प्रमोद कुमार (AIUTUC)                            | सदस्य        |
| युनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर, नाला रोड, पटना ।           |              |
| 7. सोनल सिन्हा, कार्यकारी सदस्य,                         | सदस्य        |
| नेशनल यूनियन ऑफ़ इनफारमर वर्कर्स,                        |              |
| महिला प्रतिनिधि (भवन निर्माण कामगार के प्रतिनिधि )       |              |
| <b>नियोजक के प्रतिनिधि</b>                               |              |
| 8. श्री अरुण अग्रवाल, अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन | सदस्य        |
| सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना                               |              |
| 9. श्री मणिकान्त, बिल्डर्स एसोसियेशन                     | सदस्य        |
| 10. नगर विकास विभाग के नामित प्रतिनिधि                   | सदस्य        |

11. श्री पी०के०अग्रवाल, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना	सदस्य
12. बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
<b>राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि</b>	
13. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
14. वित्त विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. विधि विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
16. श्रम संसाधन विभाग के तकनीकी पक्ष के नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
17. श्रम संसाधन विभाग सामान्य पक्ष के नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य

#### अन्यान्य

(i) बोर्ड का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा ।

(ii) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगी ।

(iii) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, आकस्मिक रिक्ति भरा जाना, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता, कार्यों का निपटारा, बैठक की कार्यवृत्त, शुल्क एवं भत्ता, बोर्ड की शक्तियाँ, बोर्ड के सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली के नियम- 251 से 264 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा ।

2. पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड की सदस्यों की पदावधि उनके नियुक्ति के तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी ।

बशर्त कि सदस्य तबतक रह सकते हैं जबतक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो । किसी भी स्थिति में सदस्य उनके नियुक्ति के 04 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यरत नहीं रहेंगे ।

3. बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम- 259 के उप-नियम (1) एवं (2) एवं बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 144 (1) यथा संशोधित, के अधीन सरकार ने निर्णय लिया है कि समिति के सभी गैर सरकारी सदस्य जो उस स्थान के नहीं हो, जहाँ बैठक हो रही है, यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ पी०बी०-2 ग्रेड पे- 5400/- रुपये के वेतन के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी माने जायें तथा यात्रा भत्ता निम्न प्रकार से नियमानुसार देय होगा -

1. ट्रेन भत्ता - ए०सी० 2टीयर
2. सड़क भत्ता - गैर ए०सी० टैक्सी
3. दैनिक भत्ता (वी०-1 शहर के लिए) सामान्य - रु० 1500.00 प्रतिदिन

(i) होटल में आवास - रु० 1500.00

(ii) शहर में यात्रा भत्ता- रु० 150.00 प्रतिदिन

(iii) खाना इत्यादि - रु० 200.00 प्रतिदिन अधिकतम

सदस्यों को यह भत्ता या विरामभत्ता उसी दशा में मिलेगा जब वे प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने यात्रा या विरामभत्ता के लिए जो दावा किया है, इसके संबंध में उन्होंने किसी दूसरे श्रोत से कोई यात्रा या विरामभत्ता नहीं लिया है ।

(iv) रेल या बस से जुड़े स्थानों के लिए टैक्सी या निजी गाड़ी से की गयी यात्रा के लिए भत्ता सदस्यों के लिए अनुमान्य नहीं होगा ।

(v) समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता विपत्रों को श्रमायुक्त, बिहार के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त विपत्र में अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा ।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को राजपत्र के गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
देवनन्दन यादव,  
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 478-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>